



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-07032024-252700
CG-DL-E-07032024-252700

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 1056]

नई दिल्ली, बुधवार, मार्च 6, 2024/फाल्गुन 16, 1945

No. 1056]

NEW DELHI, WEDNESDAY, MARCH 6, 2024/PHALGUNA 16, 1945

वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय

(वाणिज्य विभाग)

(विदेश व्यापार महानिदेशालय)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 1 मार्च, 2024

सं. 65/2023

विषय: संयुक्त अरब अमीरात को प्याज (एचएस कोड 0703 10 19 के तहत) का निर्यात।

का.आ. 1113(अ).—विदेश व्यापार नीति, 2023 के पैरा 1.02 और 2.01 के साथ पठित यथा संशोधित विदेश व्यापार (विकास और विनियमन) अधिनियम, 1992 (1992 की संख्या 22) की धारा 5 के साथ पठित धारा 3 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और दिनांक 07.12.2023 की अधिसूचना संख्या 49/2023 के पैरा 3 में निहित प्रावधान के अनुरूप केन्द्र सरकार, राष्ट्रीय सहकारी निर्यात लिमिटेड (एनसीईएल) के माध्यम से संयुक्त अरब अमीरात को 3600 मी.ट. त्रैमासिक की अधिकतम मात्रा के साथ 14,400 मीट्रिक टन प्याज (एचएस कोड 0703 10 19 के तहत) के निर्यात की अनुमति प्रदान करती है।

2. अधिसूचना का प्रभाव:

राष्ट्रीय सहकारी निर्यात लिमिटेड (एनसीईएल) के माध्यम से संयुक्त अरब अमीरात को 3600 मी.ट. त्रैमासिक की अधिकतम मात्रा के साथ 14,400 मीट्रिक टन प्याज (एचएस कोड 0703 10 19 के तहत) का निर्यात अधिसूचित किया जाता है।

[फा. सं. 01/91/191/060/एम-24/ईसी (इ-38291)]
संतोष कुमार सारंगी, महानिदेशक विदेश व्यापार और पदेन अपर सचिव

MINISTRY OF COMMERCE AND INDUSTRY**(Department of Commerce)****(Directorate General of Foreign Trade)****NOTIFICATION**

New Delhi, the 1st March, 2024

No. 65/2023**Subject: Export of Onions (under HS code 0703 10 19) to UAE.**

S.O. 1113(E).—In exercise of powers conferred by Section 3 read with section 5 of the Foreign Trade (Development & Regulation) Act, 1992 (No. 22 of 1992), as amended, read with Para 1.02 and 2.01 of the Foreign Trade Policy, 2023 and in accordance with the provision contained in Para 3 of Notification No. 49/2023 dt. 07.12.2023, the Central Government permits export of 14,400 MT of onions (under HS code 0703 10 19), with a quantity ceiling of 3600 MT quarterly, to UAE through National Cooperative Exports Limited (NCEL).

2. Effect of the Notification:

Export of 14,400 MT of onions (under HS code 0703 10 19), with a quantity ceiling of 3600 MT quarterly, to UAE through National Cooperative Exports Limited (NCEL) is notified.

[F. No. 01/91/191/060/AM-24/EC (e-38291)]

SANTOSH KUMAR SARANGI, Director General of Foreign Trade, Ex-Officio Addl. Secy.